

PROJECT ESTIMATE



MADHYANCHAL VIDYUT VITARAN NIGAM LTD.

(A State Government Undertaking)

Head office 4-A, Gokhale Marg, Lucknow 226001

Ph No. 0522-2208737 GSTIN: 09AAECM0108JIZO

Project Description : SHRI SARWAN KUMAR

Project Code : MVDP.RB.PD5041

Estimate Value : 83,758.06

Estimate Printout Date : 18.12.2023

Previous Approved Version : N.A.

Fund (Project Code) : PTW_DEPOSI

SR. NO.	PARTICULARS	UNIT	QTY	RATE(RS.)	AMOUNT
	Material & Service-Lines&Cable - MVDP.RB.PD5041.A				
1	A.C.S.R. WEASEL CONDUCTOR - 1000000028	M	66.000	23.98	1,582.68
2	STAY WIRE 7/10 SWG - 2700000071	KG	13.500	123.00	1,660.50
3	TOP CHANNEL - 1800000013	No	1.000	832.00	832.00
4	G.I.WIRE 6 SWG - 2700000003	KG	3.000	123.00	369.00
5	HOLDING CLAMP FOR PCC POLE 8.5 MTR. - 2500000002	No	2.000	304.00	608.00
6	STAY CLAMP 5½" - 2500000034	PAA	3.000	250.00	750.00
7	SS BASE ANGLE - 1800000053	No	2.000	1,778.00	3,556.00
8	DISC FITTING 45KN (T&C) - 1700000374	No	6.000	97.00	582.00
9	STAY SET 16X1800 - 2700000131	No	3.000	1,223.50	3,670.50
10	PCC POLE 8.5 MTR.LONG - 1500000000	No	2.000	2,721.00	5,442.00
11	11KV COMP. POLY. DISC INSULATOR 45KN T&C - 2700000173	No	6.000	167.00	1,002.00
12	EARTH ROD 2540X20 MM - 1700000133	No	2.000	838.00	1,676.00
13	TEE-OFF CHANNEL - 1800000012	No	1.000	478.00	478.00
14	11 KV COMPOSITE POLYMER PIN INSULATOR - 2700000193	No	3.000	123.00	369.00
	Sub Total - Material (Rs.)				22,577.68
	Total - Material & Service-Lines&Cable - (Rs.)				22,577.68
	Material & Service-Plant&Machinery - MVDP.RB.PD5041.B				
1	TD 25KVA/11/0.43KV L-II 4 STAR AL. WOUND - 2000000006	No	1.000	56,780.00	56,780.00
	Sub Total - Material (Rs.)				56,780.00

	Total - Material & Service-Plant&Machinery - (Rs.)			56,780.00
	LABOUR SES - MVDP.RB.PD5041.K			
1	Charges			829.29
	Sub Total - Charges (Rs.)			829.29
	Total - LABOUR SES - (Rs.)			829.29
	T&P Charges - MVDP.RB.PD5041.Q			
1	T&P Charges			1,190.36
	Sub Total - Charges (Rs.)			1,190.36
	Total - T&P Charges - (Rs.)			1,190.36
	Contingency Charges - MVDP.RB.PD5041.Z			
1	Contingency Charges			2,380.73
	Sub Total - Charges (Rs.)			2,380.73
	Total - Contingency Charges - (Rs.)			2,380.73
	Total(Materials + Services + Charges) (Rs.)			83,758.06
	Return Material - MVDP.RB.PD5041.A			
	Grand Total (Rs.)			83,758.06

Amount in Words: **Eighty Three Thousand Seven Hundred Fifty Eight Rupees Six Paise Only**

(Jr Engineer - E&M)
Mukesh Kumar Bharti
11003214

(Asst Engineer - E&M)
Shashank Sharma
11006470
APPROVED - 16.12.2023


(EE EDD-II Raebareli)
Amrit Kumar Singh
11001331

APPROVED - 15.12.2023

नक़्क़ुलएा फीडर सर्वे

श्री श्री गणेशाय नमः 310 महावीर
 श्री-पुरवापिडाण्ड पौ-शेकरा राज साजा
 08MR 17-10

A.MO - 1008356265



- ① पट्टे सर्वे हमारे सामने किया गया है तथा मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ।
- ② उपरोक्त का कोई विवाद का वकाया नहीं है तथा कन्वैन्स दिया जा सकता है।
- ③ उपरोक्त लाइन बनवाने कि पूर्ण रूप से जिम्मेदारी होगी।

[Signature]
 SE

श्री गणेशाय
 श्री गणेशाय

TECHNICAL FEASIBILITY REPORT

- 1- Name of Party & Address Shri. Sarwan Kumar
- 2- Site of Location Prasa Pindar
- 3- Load required 20 k.P
- 4- Existing Load if any —
- 5- Manufacturing process Agriculture
Sub-station and its capacity from 20 MVA / Alaura
which supply is to be given.....
- 7- Capacity of existing T/F Feeder 1000 25 kVA
and present position of load on it.....
- 8- Whether there exists adequate distribution
same in the area yes
- 9- Is there any other's connection in
same permission? NO
- 10- Distance of unit from sub-station 10 K.M
- 11- Is there permission in under disputes? NO
- 12- Whether increase in capacity of Sub Station or transformer shall be required for given
the load NO
- 13- Is there or any connection in the name of consumers his father brother and wife
to? NO
- 14- Whether it would require construction of new sub-station if yes by which time it would
be possible yes
- 15- Whether the building is needed permanent connection yes


SUMMARY OF T.F.R.

Load required technically feasible. yes

OR

Load required is not technically feasible till. Y

Note:- Please attach line diagram if necessary.


J.E.

33/11 KV S/S Alaura



SDO-III
EDSD-ATAURA